

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 3—मई 9, 2014 (वैसाख 13, 1936)

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 3—MAY 9, 2014 (VAISAKHA 13, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2014

सेना शाखा

सं. 82, दिनांक 6 मार्च 2014—अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 05 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर (परखा पर)

कप्तान रूही सिंह (एम एस 16819-एफ) को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 27.09.2008 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है

कप्तान कल्याणि भारती सुखदेव (एम एस 13720ए) आयोग की तिथि 18 अक्टूबर 1999 वरिष्ठता की तिथि- 18 अप्रैल 1997 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 18 अप्रैल 1997 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता

हड्डी रोग विज्ञान के लिए 24 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा नोशनल ज्येष्ठता 18 अप्रैल 1997 से की गई जो कि वेतन तथा भत्तों के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(पूर्व को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है)

कप्तान सन्ध्या सिंचरी (एम एस 16708-के) आयोग की तिथि 17 जून 2010 को वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 17-12-2009 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/ स्नातकोत्तर योग्यता के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल हैं जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी)

जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परखा पर)

कप्तान सोमेश ठाकुर	एम एस 17005 पी	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान मनपाल सिंह यादव	एम एस 17006 एक्स	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान निमेष कुमार तिवारी	एम एस 17007 ए	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान अनीश शर्मा	एम एस 17009 एल	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान दीप्ती सिंह	एम एस 17011 एच	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान अमनदीप सिंह सैनी	एम एस 17012 एल	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान इकरूप कौर सहोता	एम एस 17013 एन	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान मयंक तोमर	एम एस 17017 के	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान नरेन्द्र शर्मा	एम एस 17021एम	ए एम सी	17.11.2012
कप्तान मिनाक्षी ढडवाल	एम एस 17029 वाई	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान मनिषा देब	एम एस 16206 एफ	ए एम सी	11.08.2009
कप्तान जीगर रागनेश कौशिकप्रसाद	एम एस 17036 पी	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान अमित छिकारा	एम एस 17037 एक्स	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान वरुण कुमार	एम एस 17038 ए	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान वार्तिका गुप्ता	एम एस 17039 एच	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान पवन कुमार	एम एस 17044 एन	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान राजेश कुमार	एम एस 17046 वाई	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान उमेश कुमार सिंह	एम एस 17052 एम	ए एम सी	29.12.2012
कप्तान शिव प्रताप सिंह	एम एस 16958 एल	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान रोहित उप्रेती	एम एस 16966 के	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान देवत्रेय पाल	एम एस 16969 एक्स	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान ज्यानेन्द्र सिंह भदौरिया	एम एस 16970 एम	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान सुभाष चन्द्र	एम एस 16971 पी	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान विकास कुमार	एम एस 16972 एक्स	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान पवार अशोक भगवान	एम एस 16973 ए	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान अक्षय शुक्ला	एम एस 16974 एच	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान विक्रमजीत सिंह	एम एस 16975 एल	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान इक्जोत सिंह	एम एस 16977 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2012

कप्तान मंजुनाथ ए आर	एम एस 16978 वाई	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान श्रे धिमान	एम एस 16982 एफ	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान ब्रजेश कुमार सिंह	एम एस 16986 एक्स	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान प्रतीक गोयल	एम एस 16987 ए	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान विनय बौठियाल	एम एस 16991 एच	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान यशो चतुर्वेदी	एम एस 16994 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान पाटील प्रदल्या प्रलहाद	एम एस 16995 वाई	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान पटवाल राजीव प्रेमसिंह	एम एस 16997 के	ए एम सी	21.09.2012
कप्तान चंद्रचूड मंदार विलास	एम एस 17004 एम	ए एम सी	06.11.2012
कप्तान अफाक अहमद फारुक	एम एस 16980 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2012

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 7 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परखा पर)

लेफ्टिनेन्ट सय्यद फराज इकबाल	एम एस 17102 एम	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट विकास पाण्डे	एम एस 17104 एक्स	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट सुदीप कुमार रोय	एम एस 17106 एच	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट फिनेहस पिंटो एम	एम एस 17110 एल	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट आर प्रमोद	एम एस 17111एन	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट राहुल राय	एम एस 17112 डब्ल्यू	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट धर्मपाल गोयल	एम एस 17113 वाई	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट अरुण एस नायर	एम एस 17114 एफ	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट उमर फारुख	एम एस 17085 एक्स	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट मोहम्मद इरसाद	एम एस 17086 ए	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट नितिन सिंघानिया	एम एस 17091 एल	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट मो: इसहाक कुरैशी	एम एस 17092 एन	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट जीत सिंह आर्या	एम एस 17096 के	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट सौरभ महाजन	एम एस 17097 एम	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट राजहंस	एम एस 17099 एक्स	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट मोहिनी अग्रवाल	एम एस 17072 ए	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट प्रानजली दिव्यम द्विवेदी	एम एस 17073 एच	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट मनिषा बिस्वाल	एम एस 17074 एल	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट वैभव गुप्ता	एम एस 17076 डब्ल्यू	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट प्रियांशी चौधरी	एम एस 17077 वाई	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट आराधना रौत	एम एस 17078 एफ	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट जिमना जोय	एम एस 17079 के	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट रिचा चौधरी	एम एस 17080 वाई	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट पूजा यादव	एम एस 17081एफ	ए एम सी	18.03.2013
लेफ्टिनेन्ट अविजित सिंह चौहान	एम एस 17084 पी	ए एम सी	18.03.2013

राष्ट्रपति महोदय यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना
अल्पकालीन कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा)
सर्जन लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परखा पर)

सर्जन लेफ्टिनेन्ट मुकेश उदेवीर सिंह	एम एस 17016 एफ 76174वाई	ए एम सी	06.11.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट पवार योगिता रामराव	एम एस 17019पी 76175 जेड	ए एम सी	06.11.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट सचिन भरद्वाज आर	एम एस 17020 के 76180 के	ए एम सी	17.11.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट जोशी प्रसन्न प्रमोद	एम एस 17024 ए 76181 एन	ए एम सी	17.11.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अरविन्द कुमार अग्रहारी	एम एस 17027 एन 76193 आर	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अजयकुमारनायक के	एम एस 17034 के 76185वाई	ए एम सी	29.12.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अंशुल वशिष्ट	एम एस 16979 एफ	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट अबिजित बि कृष्ण	एम एस 16985पी	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट कोटियन विनीत गोपाल	एम एस 16990 ए	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट जी के शरत	एम एस 16992 एल 76172 टी	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट जयकृष्णन वी वाई	एम एस 16999 पी 76160 आर	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट एस आनंदी	एम एस 17000 डब्ल्यू	ए एम सी	21.09.2012
सर्जन लेफ्टिनेन्ट हिमांशी मानकटला	एम एस 17001 वाई 76177 बी	ए एम सी	23.10.2012

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)/स्थायी आयोग अधिकारियों को 15 दिसम्बर 1987 से नियुक्त करते हैं:-

नियमित सेना
स्थायी आयोग
सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)
2nd/लेफ्टिनेन्ट के पद पर 15 दिसम्बर 1987 से प्रभावी

पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
हवलदार (अब भूतपूर्व नायब सूबेदार)	शशि कुमार	13932064-पी (जे सी -690130-वाई)	एन टी आर-16882-डब्ल्यू	15 दिसम्बर 1987

राष्ट्रपति सहर्ष सेना अनुदेश 10/2001 के अधीन निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)/स्थायी कमीशन अधिकारियों को 07 अप्रैल 2010 से नियुक्त करते हैं:-

नियमित सेवा
स्थायी कमीशन
(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)
लेफ्टिनेंट के पद पर 07 अप्रैल 2010 से प्रभावी

पद	नाम	पुराना सैन्य संख्या	नया व्यक्तिगत संख्या	आयोग की तिथि
हवलदार	हर्मेश यादव	13980633-पी	एन टी आर-16844-ए	07 अप्रैल 2010

2. उपयुक्त अधिकारी आयोग की तिथि से 02 वर्ष के लिए परखावधि पर रहेगा ।

3. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 21 अप्रैल 2012 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो की लेफ्टिनेंट तद्समयानुसार 06 सितम्बर 2010 से प्रकाशित है, जिसका संबंध उपयुक्त अधिकारी से है उसे रद्द किया जाता है ।

राजवीर सिंह
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा. स.)

सेना शाखा

सं. 83, दिनांक 07 मार्च 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)/स्थायी आयोग अधिकारी को परख अवधि पूरा होने पर पुष्टि करते हैं:

नियमित सेवा
स्थायी आयोग
(सेना चिकित्सा सेवा) (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि	स्थायीकरण की तिथि
एन टी आर-16844-ए	कप्तान	हर्मेश यादव	07 अप्रैल 2010	07 अप्रैल 2012

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 04 मई 2013 को प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो की परख अवधि पूरा होने पर पुष्टि के संबंध में है, जिसका संबंध उपयुक्त अधिकारी से है उसे रद्द किया जाता है ।

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि
एन टी आर-16855-एम	लेफ्टिनेंट	देशमुख सुरज अप्पासाहेब	23 अप्रैल 2011
एन टी आर-16856-पी	लेफ्टिनेंट	मुहम्मद शाफी पी ए	23 अप्रैल 2011
एन टी आर-16860-एक्स	लेफ्टिनेंट	राकेश दलाल	23 अप्रैल 2011
एन टी आर-16857-एक्स	लेफ्टिनेंट	सलीम जाफ्फर	23 अप्रैल 2011
एन टी आर-16858-ए	लेफ्टिनेंट	जीतेंद्र	23 अप्रैल 2011
एन टी आर-16859-एच	लेफ्टिनेंट	कवाडे अकाश अनिल	23 अप्रैल 2011

अल्पकालिक सेवा आयोग
सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	आयोग की तिथि
एन टी एस-17602-के	लेफ्टिनेंट	प्रकाश चंद्र मिश्रा	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17604-पी	लेफ्टिनेंट	सतीश कुमार	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17605-एक्स	लेफ्टिनेंट	शाजी के पी	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17606-ए	लेफ्टिनेंट	सुजेश पी	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17607-एच	लेफ्टिनेंट	शेख रेड्डी गौस	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17608-एल	लेफ्टिनेंट	तनमय कुमार मिश्रा	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17609-एन	लेफ्टिनेंट	यशविर सिंह	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17610-एच	लेफ्टिनेंट	नागाजुम रीडा	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17611-एल	लेफ्टिनेंट	बिक्रम	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17612-एन	लेफ्टिनेंट	गौरव राय	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17613-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	राजीश के	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17615-एफ	लेफ्टिनेंट	मिथुन एस एम	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17616-के	लेफ्टिनेंट	सुबोध कुमार	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17617-एम	लेफ्टिनेंट	सतेंद्र सिंह सेंगर	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17603-एम	लेफ्टिनेंट	पी राजारमन	10 अप्रैल 2012
एन टी एस-17614-वाई	लेफ्टिनेंट	विवेक कुमार	10 अप्रैल 2012

राजवीर सिंह
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा. स.)

सेना शाखा

सं. 84, दिनांक 10 मार्च 2014---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16669-डब्ल्यू	मेजर	के एन नायडू	11 जनवरी 2013
एन टी आर-16672-डब्ल्यू	मेजर	साइमन पी एल	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16673-वाई	मेजर	एम डी पाटिल	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16674-एफ	मेजर	राजेश चंद्र शर्मा	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16675-के	मेजर	डी एस चौहान	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16676-एम	मेजर	दिवान सिंह	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16677-पी	मेजर	विजय कुमार	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16678-एक्स	मेजर	एन महाबिर सिंह	11 अप्रैल 2013

एन टी आर-16679-ए	मेजर	एम जी पलानी	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16680-पी	मेजर	टी जी सिंह	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16707-एफ	मेजर	दिवान सिंह	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16708-के	मेजर	चंद्रभान	11 अप्रैल 2013
एन टी आर-16882-डब्ल्यू	मेजर	शशि कुमार	16 दिसम्बर 2004

कप्तान से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16882-डब्ल्यू	कप्तान	शशि कुमार	15 दिसम्बर 2000
एन टी आर-16770-डब्ल्यू	कप्तान	विरेंद्र	20 मार्च 2013
एन टी आर-16771-वाई	कप्तान	बहादुर सिंह	20 मार्च 2013
एन टी आर-16772-एफ	कप्तान	विजय कुमार	20 मार्च 2013
एन टी आर-16853-एफ	कप्तान	बिरेन्द्र सिंह बिष्ट	20 मार्च 2013
एन टी आर-16760-एम	कप्तान	जगबिर सिंह	20 मार्च 2013
एन टी आर-16761-पी	कप्तान	एम ओमैयरुभागन पिल्लै	20 मार्च 2013
एन टी आर-16762-एक्स	कप्तान	सी एम थंगा राज	20 मार्च 2013
एन टी आर-16763-ए	कप्तान	पुथा अशोक कुमार रेड्डी	20 मार्च 2013
एन टी आर-16764-एच	कप्तान	शिंदे दत्तत्रया बिभीषण	20 मार्च 2013
एन टी आर-16766-एन	कप्तान	प्रेमजिथ लाल एल	20 मार्च 2013
एन टी आर-16767-डब्ल्यू	कप्तान	राठौड़ मुकेश कुमार नविन चंद्र	20 मार्च 2013
एन टी आर-16768-वाई	कप्तान	नेवसे विकास हनुमंत राव	20 मार्च 2013
एन टी आर-16769-एफ	कप्तान	विनोद कुमार शर्मा	20 मार्च 2013
एन टी आर-16773-के	कप्तान	चंदन कुमार नायक	20 मार्च 2013
एन टी आर-16774-एम	कप्तान	विरेंद्र सिंह दहिया	20 मार्च 2013
एन टी आर-16852-वाई	कप्तान	हरि दास वी	20 मार्च 2013
एन टी आर-16854-के	कप्तान	शशिकांत	20 मार्च 2013
एन टी आर-16878-एन	कप्तान	रियाज	20 मार्च 2013
एन टी आर-16879-डब्ल्यू	कप्तान	मनिल कुमार यादव	20 मार्च 2013

लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16882-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	शशि कुमार	15 दिसम्बर 1993
एन टी आर-16844-ए	लेफ्टिनेंट	हर्मेस यादव	07 अप्रैल 2012

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 04 मई 2013 में प्रकाशित, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो की कप्तान तदसमयानुसार 06 सितम्बर 2012 से प्रकाशित है, जिसका संबंध उपयुक्त अधिकारी से है उसे रद्द किया जाता है:-

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3	4
एन टी आर-16855-एम	लेफ्टिनेंट	देशमुख सुरज अप्पासाहेब	23 अप्रैल 2013
एन टी आर-16856-पी	लेफ्टिनेंट	मुहम्मद शाफी पी ए	23 अप्रैल 2013
एन टी आर-16857-एक्स	लेफ्टिनेंट	सलीम जाफ्फर	23 अप्रैल 2013
एन टी आर-16858-ए	लेफ्टिनेंट	जीतेंद्र	23 अप्रैल 2013

1	2	3	4
एन टी आर-16859-एच	लेफ्टिनेंट	कवाडे अकाश अनिल	23 अप्रैल 2013
एन टी आर-16860-एक्स	लेफ्टिनेंट	राकेश दलाल	23 अप्रैल 2013

2nd लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी आर-16882-डब्ल्यू	2dn लेफ्टिनेंट	शशि कुमार	15 दिसम्बर 1989

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

एम एस14121-एम	मेजर	जयकिसन के पी	08.01.2012
एम एस14319-एल	मेजर	बबलि सिंह	21.01.2013
एम एस14352-एच	मेजर	नीलिमा मिश्रा	19.02.2013

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

एम एस 16428डब्ल्यू (ए एफ 30885एन)	स्क्वाड्रन लीडर	प्रीति कलानी	04.12.2011
एम एस14423-वाई (ए एफ26488टी)	स्क्वाड्रन लीडर	नेहा नांदल	21.01.2013

कैप्टन से मेजर के पद पर

एम एस15875-एन	कैप्टन	व्दैपायन भौमिक	12.08.2012
एम एस16032-एम	कैप्टन	शिवानी प्राशर	26.02.2013
एम एस16051-एक्स	कैप्टन	दिलीप सिंह शक्तावत	26.02.2013
एम एस16852-वाई	कैप्टन	विक्रान्त	29.09.2012
एम एस- 15519 एन	कैप्टन	गुरमेश सिंह सभवाल	06.02.2012
एम एस- 15624 के	कैप्टन	दीप्तिका अग्रवाल	06.09.2011
एम एस15770-के	कैप्टन	अनूप कुमार सरकार	25.04.2012
एम एस15943-डब्ल्यू	कैप्टन	पाटील सुशांत शिवाजीराव	11.12.2012
एम एस -15627 एक्स	कैप्टन	हिम्मत सिंह राठौर	06.09.2011
एम एस -15684 वाई	कैप्टन	अभिषेक पुरकायस्ता	01.02.2013
एम एस -15902 एम	कैप्टन	अनिन्द्य तपादर	12.08.2012
एम एस -16008 डब्ल्यू	कैप्टन	मोहम्मद मुजास्मिल	26.02.2013
एम एस -16037 एल	कैप्टन	सुमित जिन्दल	26.02.2013
एम एस -16043 वाई	कैप्टन	एकता बिस्वास	26.02.2013
एम एस -16052 ए	कैप्टन	वेद प्रकाश सिंह	26.02.2013
एम एस -16760 एम	कैप्टन	अमिताभ चक्रवर्ती	26.02.2013
एम एस -15641 के	कैप्टन	अयाजुल हक	06.09.2011
एम एस -15651 एन	कैप्टन	चारु जैन	01.02.2013
एम एस-15654 एफ	कैप्टन	गीतिका सिंगला	01.02.2013
एम एस -15656 एम	कैप्टन	वंदना बंसल	01.02.2013
एम एस -15657 पी	कैप्टन	अनुराग शुक्ला	01.02.2013

एम एस -15659 ए	कैप्टन	देव प्रकाश यादव	01.02.2013
एम एस-15668 एफ	कैप्टन	शिवराज सिंह बल	01.02.2013
एम एस -15679 एन	कैप्टन	योगेश कुक्रैजा	01.02.2013
एम एस -15887 एच	कैप्टन	राजीव रंजन	12.02.2012
एम एस -15995 एम	कैप्टन	विक्रम सिंह राठौर	26.02.2013
एम एस-16009 वाई	कैप्टन	नरेश गुप्ता	26.02.2013
एम एस-16025 डब्ल्यू	कैप्टन	चुंदरु जय राम	26.02.2013
एम एस-16027 एफ	कैप्टन	पिंजरकर प्रफुल्ल दत्तात्रेय	26.02.2013
एम एस -16040 एल	कैप्टन	पंकज पाण्डे	26.02.2013
एम एस-16044 एफ	कैप्टन	राधा कांत नाथ	26.02.2013
एम एस -16064 पी	कैप्टन	संदीप कुमार यादव	26.02.2013
एम एस-16065 एक्स	कैप्टन	सत्यजित चक्रबर्ती	26.02.2013
एम एस -16097 ए	कैप्टन	शरवण कुमार आर	28.01.2013
एम एस -16149 एल	कैप्टन	जूसी महन्ता	29.01.2013
एम एस-16163 एक्स	कैप्टन	मलय कुमार	10.02.2013
एम एस -16172 वाई	कैप्टन	राखी सिंह	11.02.2013
एम एस -16306 एम	कैप्टन	विष्णु वर्धन के	26.02.2013
एम एस -16307 पी	कैप्टन	राम्बाबु मुप्पुरि	26.02.2013
एम एस -16323 एम	कैप्टन	शेक शफी राजा	31.01.2013
एम एस -16336 के	कैप्टन	सुनील सिंह शेखावत	11.02.2013
एम एस-15655के	कैप्टन	मोहम्मद खान	01.02.2013
एम एस-15658एक्स	कैप्टन	हरप्रीत कौर बल	01.02.2013
एम एस-15662ए	कैप्टन	संदीप लाल वी	01.02.2013
एम एस-15667वाई	कैप्टन	वेद प्रताप तिवारी	01.02.2013
एम एस-15669के	कैप्टन	सौरभ अग्रवाल	01.02.2013
एम एस-15670वाई	कैप्टन	अवकाश कुमार सिन्हा	01.02.2013
एम एस-15673एम	कैप्टन	शशांक रायकवर	01.02.2013
एम एस-15674पी	कैप्टन	श्रेयश तिवारी	01.02.2013
एम एस-15681एल	कैप्टन	ख्यतिश शर्मा	01.02.2013
एम एस-15686के	कैप्टन	हरिकृष्णन वी	01.02.2013
एम एस-15688पी	कैप्टन	रौनक दुबे	01.02.2013
एम एस-16006एल	कैप्टन	ज़हिद अली खान	26.02.2013
एम एस-16016पी	कैप्टन	शैलेन्द्र	26.02.2013
एम एस-16018ए	कैप्टन	मुकेश खत्री	26.02.2013
एम एस-16019एच	कैप्टन	सुरेन्द्र सिंह शेखावत	26.02.2013
एम एस-16024एन	कैप्टन	प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	26.02.2013
एम एस-16063एम	कैप्टन	शिवाजी प्रसाद	26.02.2013
एम एस-16066ए	कैप्टन	जितेन्द्र कुमार	26.02.2013
एम एस-16070एच	कैप्टन	विवेक मालवीय	26.02.2013
एम एस-16098एच	कैप्टन	आनंद कुमार सी	28.01.2013

एम एस-16170एन	कैप्टन	राजेश कुमार पाण्डेय	11.02.2013
एम एस-16225एम	कैप्टन	अमिताभ सुखदेवे	11.02.2013
एम एस-16234एन	कैप्टन	सरोज कुमार चौधरी	12.02.2013
एम एस-16337एम	कैप्टन	कमल दास	11.02.2013
एम एस-16357ए	कैप्टन	नवनीता मण्डल	13.02.2013
एम एस 15991डब्ल्यू	कैप्टन	सुनील मारु	26.02.2013
एम एस -16003एक्स	कैप्टन	परवीन कुमार	26.02.2013
एम एस -16007एन	कैप्टन	तरांगे अर्चना	26.02.2013
एम एस -16011डब्ल्यू	कैप्टन	गौरव धीमान	26.02.2013
एम एस -16031के	कैप्टन	गोकुल बी	26.02.2013
एम एस -16060वाई	कैप्टन	अकोइजम ब्रजमणि सिंह	26.02.2013
एम एस -16121एल	कैप्टन	कल्याण कुमार भक्त	28.01.2013
एम एस -16180एक्स	कैप्टन	सायखेडकर स्वीप्नल किशनराय	11.02.2013
एम एस -16217एन	कैप्टन	श्रवण कुमार मिश्रा	11.02.2013
एम एस -16333डब्ल्यू	कैप्टन	प्रशान्त शर्मा	11.02.2013

फ्लाईट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

एम एस-15893डब्ल्यू (ए एफ-30041टी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	वाघमारे सचिन पंदरीनाथ	12.08.2012
एम एस-15908एन (ए एफ-30042बी)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	विनोद कुमार गोयल	12.08.2012
एम एस-16360ए (ए एफ-30700एफ)	फ्लाईट लेफ्टिनेंट	अजय कुमार यादव	20.02.2013

सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर

एम एस-16077एम (76006आर)	सर्जन लेफ्टिनेंट	अमित शर्मा	09.04.2013
एम एस-16080एम (76003एच)	सर्जन लेफ्टिनेंट	सूर्यवंशी मनोहर हनुमंतराव	09.04.2013
एम एस-16084एच (76033ए)	सर्जन लेफ्टिनेंट	विष्णु मोहन एम	13.06.2013

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

एम एस-16801एल	लेफ्टिनेंट	हेमन्त हिमांशु परिहार	07.08.2012
---------------	------------	-----------------------	------------

सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

कैप्टन से मेजर के पद पर

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	पदोन्नति की तिथि
एन टी एस-17546-डब्ल्यू	कप्तान	उपेंद्र सिंह चौहान	20 मार्च 2013
एन टी एस-17547-वाई	कप्तान	थॉमस कुरियन	20 मार्च 2013
एन टी एस-17548-एफ	कप्तान	विमेश कुमार टी एम	20 मार्च 2013
एन टी एस-17549-के	कप्तान	लक्ष्मी पति	20 मार्च 2013
एन टी एस-17551-एफ	कप्तान	कैलास चंद्र किचर	20 मार्च 2013

एन टी एस-17552-के	कप्तान	उबले नरायण सर्जे राव	20 मार्च 2013
एन टी एस-17554-पी	कप्तान	दीपक राव एस	20 मार्च 2013
एन टी एस-17555-एम	कप्तान	जियांलुंगपो गमैई	20 मार्च 2013
एन टी एस-17532-डब्ल्यू	कप्तान	जॉन बेबी	07 अप्रैल 2012

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के पद पर

एन टी एस-17587-ए	लेफ्टिनेंट	अनूप सिंह भदोरिया	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17588-एच	लेफ्टिनेंट	श्री कुमार एस	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17589-एल	लेफ्टिनेंट	अशोक राज एम	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17590-ए	लेफ्टिनेंट	राजीव धामि	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17591-एच	लेफ्टिनेंट	सोवित शर्मा	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17592-एल	लेफ्टिनेंट	विजय सिंह	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17593-एन	लेफ्टिनेंट	जसबीर सिंह	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17594-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट	कुणाल दास	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17595-वाई	लेफ्टिनेंट	बिभूति कुमार साहू	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17596-एफ	लेफ्टिनेंट	गुरविंदर सिंह	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17597-के	लेफ्टिनेंट	विनीत के	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17598-एम	लेफ्टिनेंट	नवनीत कुमार	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17599-पी	लेफ्टिनेंट	आनंद कुमार पांडेय	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17600-वाई	लेफ्टिनेंट	पी सुरेश	23 अप्रैल 2013
एन टी एस-17601-एफ	लेफ्टिनेंट	प्रदीप कुमार	23 अप्रैल 2013

राजवीर सिंह

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा. स.)

सेना शाखा

सं. 85, दिनांक 11 मार्च 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त की अवधि पूरी होने पर सैनिक सेवा से निवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(सेना चिकित्सा कोर) (गैर तकनीकी)

व्यक्तिगत संख्या	पद	नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
एन टी आर-16882-डब्ल्यू	लेफ्टिनेंट कर्नल	शशि कुमार	10 मई 1952	31 मई 2008 (अपराहन)

राजवीर सिंह

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा. स.)

सेना शाखा

सं. 86, दिनांक 12 मार्च 2014----संछिप्त विचारण द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को सजा दी गई:-

नियमित सेवा

स्थायी आयोग

सेना चिकित्सा कोर (गैर तकनीकी)

एन टी आर-16759- एक्स मेजर अरुण कुमार गुप्ता, सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

(ए) पदोन्नति के लिए 12 महीने का सेवा सम्पहरण करना (विधि)और

(ब) भयंकर धिगदंड (विधि)।

अधिनिर्णय की तिथि - 14 मार्च 2011

राजवीर सिंह

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स.से.चि.से (मा. स.)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd May 2014

ARMY BRANCH

No. 82, Dated 6th March 2014--The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :-

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(TO BE CAPT)

CAPT Roohie Singh MS-16819-F DOC- 27 Sep 2011

With seniority for pay and promotion from 27 Sep 2008. This includes 36 months antedate for (M.S. ENT) which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT KALYANI BHARATI SUKADEO MS-13720A

DATE OF COMMISSION 18.10.1999

DATE OF SENIORITY 18.04.1997

With seniority for pay and promotion from 18.04.1997. This includes 24 months antedate [for Master of Surgery (Orthopaedics)], which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

CAPT SANDHYA CINTURY MS-16708-K DOC- 17 Jun 2010

With seniority for pay and promotion from 17 Dec 2009. This includes 06 months antedate for House surgeon/ Junior Resident in Sri Guru Ram Das Charitable Hospital, Sri Amritsar which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification publication in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

(To be CAPT on probation)

CAPT SOMESH THAKUR	MS-17005P	AMC	06.11.2012
CAPT MANPAL SINGH YADAV	MS-17006X	AMC	06.11.2012
CAPT NIMESH KUMAR TIWARI	MS-17007A	AMC	06.11.2012
CAPT ANISH SHARMA	MS-17009L	AMC	06.11.2012
CAPT DEEPTI SINGH	MS-17011H	AMC	06.11.2012
CAPT AMANDEEP SINGH SAINI	MS-17012L	AMC	06.11.2012
CAPT IKROOP KAUR SAHOTA	MS-17013N	AMC	06.11.2012
CAPT MAYANK TOMAR	MS-17017K	AMC	06.11.2012
CAPT NARENDER SHARMA	MS-17021M	AMC	17.11.2012
CAPT MEENAKSHI DHADWAL	MS-17029Y	AMC	29.12.2012
CAPT MONISHA DEB	MS-16206F	AMC	11.08.2009
CAPT JINGAR RAGNESH KAUSHIKPRASAD	MS-17036P	AMC	29.12.2012
CAPT AMIT CHHIKARA	MS-17037X	AMC	29.12.2012
CAPT VARUN KUMAR	MS-17038A	AMC	29.12.2012
CAPT VARTIKA GUPTA	MS-17039H	AMC	29.12.2012
CAPT PAWAN KUMAR	MS-17044N	AMC	29.12.2012
CAPT RAJESH KUMAR	MS-17046Y	AMC	29.12.2012

CAPT UMESH KUMAR SINGH	MS-17052M	AMC	29.12.2012
CAPT SHIV PRATAP SINGH	MS-16958L	AMC	21.09.2012
CAPT ROHIT UPRETI	MS-16966K	AMC	21.09.2012
CAPT DEBATRAYA PAUL	MS-16969X	AMC	21.09.2012
CAPT GYANENDRA SINGH BHADAURIA	MS-16970M	AMC	21.09.2012
CAPT SUBHASH CHANDRA	MS-16971P	AMC	21.09.2012
CAPT VIKAS KUMAR	MS-16972X	AMC	21.09.2012
CAPT PAWAR ASHOK BHAGWAN	MS-16973A	AMC	21.09.2012
CAPT AKSHEY SHUKLA	MS-16974H	AMC	21.09.2012
CAPT VIKRAMJIT SINGH	MS-16975L	AMC	21.09.2012
CAPT IKJOT SINGH	MS-16977W	AMC	21.09.2012
CAPT MANJUNATH AR	MS-16978Y	AMC	21.09.2012
CAPT SHREY DHIMAN	MS-16982F	AMC	21.09.2012
CAPT BRAJESH KUMAR SINGH	MS-16986X	AMC	21.09.2012
CAPT PRATEEK GOEL	MS-16987A	AMC	21.09.2012
CAPT VINAY BAUNTHIYAL	MS-16991H	AMC	21.09.2012
CAPT YASHO CHATURVEDI	MS-16994W	AMC	21.09.2012
CAPT PATIL PRADNYA PRALHAD	MS-16995Y	AMC	21.09.2012
CAPT PATWAL RAJEEV PREMSINGH	MS-16997K	AMC	21.09.2012
CAPT CHANDRACHOOD MANDAR VILAS	MS-17004M	AMC	06.11.2012
CAPT AFAQ AHMED FAROOK	MS-16980W	AMC	21.09.2012

The President is pleased to make the following appointment for a period of 7 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY
SHORT SERVICE COMMISSION
(To be LIEUT on probation)

LT SYED FRAZ IQBAL	MS-17102M	AMC	18.03.2013
LT VIKAS PANDEY	MS-17104X	AMC	18.03.2013
LT SUDEEP KUMAR ROY	MS-17106H	AMC	18.03.2013
LT FINEHAS PINTO M	MS-17110L	AMC	18.03.2013
LT R PRAMOD	MS-17111N	AMC	18.03.2013
LT RAHUL RAI	MS-17112W	AMC	18.03.2013
LT DHARAMPAL GOYAL	MS-17113Y	AMC	18.03.2013
LT ARUN S NAIR	MS-17114F	AMC	18.03.2013
LT UMER FAROOQ M	MS-17085X	AMC	18.03.2013
LT MOHAMMED IRSHAD	MS-17086A	AMC	18.03.2013
LT NITIN SINGHANIA	MS-17091L	AMC	18.03.2013
LT MOHD ISHAQUE QURESHI	MS-17092N	AMC	18.03.2013

LT JEET SINGH ARYA	MS-17096K	AMC	18.03.2013
LT SAURABH MAHAJAN	MS-17097M	AMC	18.03.2013
LT RAJHANS	MS-17099X	AMC	18.03.2013
LT MOHINI AGRAWAL	MS-17072A	AMC	18.03.2013
LT PRANJALI DIVYAM DWIVEDI	MS-17073H	AMC	18.03.2013
LT MANISHA BISWAL	MS-17074L	AMC	18.03.2013
LT VAIBHAV GUPTA	MS-17076W	AMC	18.03.2013
LT PRIYANSHI CHOUDHARY	MS-17077Y	AMC	18.03.2013
LT ARADHANA ROUT	MS-17078F	AMC	18.03.2013
LT JIMNA JOY	MS-17079K	AMC	18.03.2013
LT RICHA CHAUDHARY	MS-17080Y	AMC	18.03.2013
LT POOJA YADAV	MS-17081F	AMC	18.03.2013
LT AVIJIT SINGH CHAUHAN	MS-17084P	AMC	18.03.2013

The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended:

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be SURG LT on probation)

SURG LT MUKESH UDEVIR SINGH	MS-17016F 76174-Y	AMC	06.11.2012
SURG LT PAWAR YOGITA RAMRAO	MS-17019P 76175-Z	AMC	06.11.2012
SURG LT SACHIN BHARADHWAJ R	MS-17020K 76180-K	AMC	17.11.2012
SURG LT JOSHI PRASANNA PRAMOD	MS-17024A 76181-N	AMC	17.11.2012
SURG LT ARVIND KUMAR AGRAHARI	MS-17027N 76193-R	AMC	29.12.2012
SURG LT AJAYKUMARNAYAKA K	MS-17034K 76185-Y	AMC	29.12.2012
SURG LT ANSHUL VAISHIST	MS-16979F	AMC	21.09.2012
SURG LT ABIJITH B KRISHNA	MS-16985P	AMC	21.09.2012
SURG LT KOTIAN VINEET GOPAL	MS-16990A	AMC	21.09.2012
SURG LT GK SHARATH	MS-16992L 76172-T	AMC	21.09.2012
SURG LT JAYAKRISHNAN VY	MS-16999P 76160-R	AMC	21.09.2012
SURG LT S ANANDI	MS-17000W	AMC	21.09.2012
SURG LT HIMANSHI MANAKTALA	MS-17001Y 76177-B	AMC	23.10.2012

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 15 Dec 1987 in AMC (Non Tech)/PC officer :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
AS 2ND/LIEUTENANT WEF 15 DEC 1987

Rank	Name	Old number and allotted new personal number		Date of Commission
		Old Army No	New Pers No	
Hav/HA (Now Ex-Nb Sub/HA)	Shashi Kumar	13932064P (Now JC-690130Y)	NTR-16882-W	15 Dec 1987

The President is pleased to make the following appointment under AI 10/2001 with effect from 07 Apr 2010, in AMC/PC (Non Tech) officers :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
AS LIEUTENANT WEF 07 APR 2010

Rank	Name	Old number and allotted new personal number		Date of Commission
		Old Army No	New Pers No	
Hav/LA	Harmesh Yadav	13980633P	NTR-16844-A	07 Apr 2010

2. THE ABOVEMENTIONED OFFICER WILL BE ON PROBATION FOR TWO YEARS FROM THE DATE OF COMMISSION.

3. GAZETTE NOTIFICATION REGARDING FIRST APPOINTMENT AS LT WITH EFFECT FROM 06 SEP 2010 PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA DATED 21 APR 2012 IN RESPECT OF ABOVE MENTIONED OFFICER IS HEREBY CANCELLED.

RAJVIR SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

No. 83, dated 7th March 2014----The President is pleased to confirm the under mentioned AMC (Non Tech)/PC officer consequent on completion of the probationary period :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Commission	Date of Confirmation
NTR-16844-A	Capt	Harmesh Yadav	07 Apr 2010	07 Apr 2012

GAZETTE NOTIFICATION REGARDING CONFIRMATION PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA DATED 04 MAY 2013 IN RESPECT OF ABOVE MENTIONED OFFICER IS HEREBY CANCELLED.

Pers No	Rank	Name	Date of Commission
NTR-16855-M	Lt	Deshmukh Suraj Appasaheb	23 Apr 2011
NTR-16856-P	Lt	Muhammed Shafi PA	23 Apr 2011
NTR-16860-X	Lt	Rakesh Dalal	23 Apr 2011
NTR-16857-X	Lt	Saleem Jaffer	23 Apr 2011
NTR-16858-A	Lt	Jitender	23 Apr 2011
NTR-16859-H	Lt	Kawade Akash Anil	23 Apr 2011

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Commission
NTS-17602-K	Lt	Prakash Chandra Mishra	10 Apr 2012
NTS-17604-P	Lt	Satish Kumar	10 Apr 2012
NTS-17605-X	Lt	Shaji KP	10 Apr 2012
NTS-17606-A	Lt	Sujesh P	10 Apr 2012
NTS-17607-H	Lt	Shaik Reddy Ghose	10 Apr 2012
NTS-17608-L	Lt	Tanmaya Kumar Mishra	10 Apr 2012
NTS-17609-N	Lt	Yashvir Singh	10 Apr 2012
NTS-17610-H	Lt	Ngajum Rida	10 Apr 2012
NTS-17611-L	Lt	Bikram	10 Apr 2012
NTS-17612-N	Lt	Gourav Rai	10 Apr 2012
NTS-17613-W	Lt	Rajeesh K	10 Apr 2012
NTS-17615-F	Lt	Mithuna SM	10 Apr 2012
NTS-17616-K	Lt	Subodh Kumar	10 Apr 2012
NTS-17617-M	Lt	Satendra Singh Sengar	10 Apr 2012
NTS-17603-M	Lt	P Rajaraman	10 Apr 2012
NTS-17614-Y	Lt	Vivek Kumar	10 Apr 2012

RAJVIR SINGH
Brig
Dy DGAFMS (HR)

No. 84, dated 10th March 2014----The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)
MAJOR TO LT COL

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16669W	Major	KN Naidu	11 Jan 2013
NTR-16672W	Major	Simon PL	11 Apr 2013
NTR-16673Y	Major	M D Patil	11 Apr 2013
NTR-16674F	Major	Rajesh Chandra Sharma	11 Apr 2013

NTR-16675K	Major	D S Chauhan	11 Apr 2013
NTR-16676M	Major	Diwan Singh	11 Apr 2013
NTR-16677P	Major	Vijay Kumar	11 Apr 2013
NTR-16678X	Major	N Mahabir Singh	11 Apr 2013
NTR-16679A	Major	M G Palani	11 Apr 2013
NTR-16680P	Major	T G Singh	11 Apr 2013
NTR-16707F	Major	Diwan Singh	11 Apr 2013
NTR-16708K	Major	Chander Bhan	11 Apr 2013
NTR-16882W	Major	Shashi Kumar	16 Dec 2004

CAPT TO MAJOR

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16882W	Capt	Shashi Kumar	15 Dec 2000
NTR-16770-W	Capt	Virender	20 Mar 2013
NTR-16771-Y	Capt	Bahadur Singh	20 Mar 2013
NTR-16772-F	Capt	Vijay Kumar	20 Mar 2013
NTR-16853-F	Capt	Birendra Singh Bisht	20 Mar 2013
NTR-16760-M	Capt	Jagbir Singh	20 Mar 2013
NTR-16761-P	Capt	M Omaiyaubhagan Pillai	20 Mar 2013
NTR-16762-X	Capt	CM Thanga Raj	20 Mar 2013
NTR-16763-A	Capt	Putha Ashok Kumar Reddy	20 Mar 2013
NTR-16764-H	Capt	Shinde Dattatraya Bibhishan	20 Mar 2013
NTR-16766-N	Capt	Premjith Lal L	20 Mar 2013
NTR-16767-W	Capt	Rathod Mukesh Kumar Navin Chandra	20 Mar 2013
NTR-16768-Y	Capt	Newase Vikas Hanumant Rao	20 Mar 2013
NTR-16769-F	Capt	Vinod Kumar Sharma	20 Mar 2013
NTR-16773-K	Capt	Chandan Kumar Nayak	20 Mar 2013
NTR-16774-M	Capt	Virender Singh Dahiya	20 Mar 2013
NTR-16852-Y	Capt	Hari Das V	20 Mar 2013
NTR-16854-K	Capt	Sashi Kant	20 Mar 2013
NTR-16878-N	Capt	Riyaz	20 Mar 2013
NTR-16879-W	Capt	Manil Kumar Yadav	20 Mar 2013

LT TO CAPT

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16882W	Lt	Shashi Kumar	15 Dec 1993
NTR-16844A	Lt	Harmesh Yadav	07 Apr 2012

GAZETTE NOTIFICATION REGARDING GRANT OF PROMOTION AS CAPT WITH EFFECT FROM 06 SEP 2012 PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA DATED 04 MAY 2013 IN RESPECT OF ABOVE MENTIONED OFFICER IS HEREBY CANCELLED.

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16855-M	Lt	Deshmukh Suraj Appasaheb	23 Apr 2013
NTR-16856-P	Lt	Muhammed Shafi PA	23 Apr 2013
NTR-16857-X	Lt	Saleem Jaffer	23 Apr 2013
NTR-16858-A	Lt	Jitender	23 Apr 2013
NTR-16859-H	Lt	Kawade Akash Anil	23 Apr 2013
NTR-16860-X	Lt	Rakesh Dalal	23 Apr 2013

2ND/LT TO LT

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTR-16882W	2 ND /Lt	Shashi Kumar	15 Dec 1989

SHORT SERVICE COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS

MAJ TO LT COL

MS-14121M	Maj	Jaikishan KP	08.01.2012
MS-14319L	Maj	Babli Singh	21.01.2013
MS-14352H	Maj	Nilima Mishra	19.02.2013

SQN LDR TO WG CDR

MS-16428W (AF-30885N)	Sqn Ldr	Priti Kalani	04.12.2011
MS-14423Y (AF-26488T)	Sqn Ldr	Neha Nandal	21.01.2013

CAPT TO MAJ

MS-15875N	Capt	Daipayan Bhowmick	12.08.2012
MS-16032M	Capt	Shivani Prashar	26.02.2013
MS-16051X	Capt	Dileep Singh Shaktawat	26.02.2013
MS-16852Y	Capt	Vikrant	29.09.2012
MS-15519N	Capt	Gurmesh Singh Sabharwal	06.02.2012
MS-15624K	Capt	Deeptika Agarwal	06.09.2011
MS-15770K	Capt	Anup Kumar Sarkar	25.04.2012
MS-15943W	Capt	Patil Sushant Shivajirao	11.12.2012
MS-15627X	Capt	Himmat Singh Rathore	06.09.2011
MS-15684Y	Capt	Abhishek Purkayastha	01.02.2013
MS-15902M	Capt	Anindya Tapadar	12.08.2012
MS-16008W	Capt	Mohammed Muzamil	26.02.2013
MS-16037L	Capt	Sumit Jindal	26.02.2013
MS-16043Y	Capt	Ekta Biswas	26.02.2013

MS-16052A	Capt	Ved Prakash Singh	26.02.2013
MS-16760M	Capt	Amitabha Chakraborty	26.02.2013
MS-15641K	Capt	Aiyazul Haque	06.09.2011
MS-15651N	Capt	Charu Jain	01.02.2013
MS-15654F	Capt	Geetika Singla	01.02.2013
MS-15656M	Capt	Vandana Bansal	01.02.2013
MS-15657P	Capt	Anurag Shukla	01.02.2013
MS-15659A	Capt	Dev Prakash Yadav	01.02.2013
MS-15668F	Capt	Shivraj Singh Bal	01.02.2013
MS-15679N	Capt	Yogesh Kukreja	01.02.2013
MS-15887H	Capt	Rajeev Ranjan	12.02.2012
MS-15995M	Capt	Vikram Singh Rathore	26.02.2013
MS-16009Y	Capt	Naresh Gupta	26.02.2013
MS-16025W	Capt	Chundru Jaya Ram	26.02.2013
MS-16027F	Capt	Pinjarkar Prafulla Dattatray	26.02.2013
MS-16040L	Capt	Pankaj Pandey	26.02.2013
MS-16044F	Capt	Radha Kanta Nath	26.02.2013
MS-16064P	Capt	Sandeep Kumar Yadav	26.02.2013
MS-16065X	Capt	Satyajit Chakraborty	26.02.2013
MS-16097A	Capt	Saravana Kumar R	28.01.2013
MS-16149L	Capt	Juicy Mahanta	29.01.2013
MS-16163X	Capt	Malay Kumar	10.02.2013
MS-16172Y	Capt	Rakhi Singh	11.02.2013
MS-16306M	Capt	Vishnu Vardhan K	26.02.2013
MS-16307P	Capt	Rambabu Muppuri	26.02.2013
MS-16323M	Capt	Shaieq Shafi Raja	31.01.2013
MS-16336K	Capt	Sunil Singh Shekhawat	11.02.2013
MS-15655K	Capt	Mohammed Khan	01.02.2013
MS-15658X	Capt	Harpreet Kaur Bal	01.02.2013
MS-15662A	Capt	Sandeep Lal V	01.02.2013
MS-15667Y	Capt	Ved Pratap Tiwari	01.02.2013
MS-15669K	Capt	Saurabh Aggarwal	01.02.2013
MS-15670Y	Capt	Avkash Kumar Sinha	01.02.2013
MS-15673M	Capt	Shashank Raikwar	01.02.2013

MS-15674P	Capt	Shreyash Tiwary	01.02.2013
MS-15681L	Capt	Khyatish Sharma	01.02.2013
MS-15686K	Capt	Harikrishnan V	01.02.2013
MS-15688P	Capt	Rounak Dubey	01.02.2013
MS-16006L	Capt	Zahid Ali Khan	26.02.2013
MS-16016P	Capt	Shailendra	26.02.2013
MS-16018A	Capt	Mukesh Khatri	26.02.2013
MS-16019H	Capt	Surendra Singh Shekhawat	26.02.2013
MS-16024N	Capt	Praveen Kumar Srivastava	26.02.2013
MS-16063M	Capt	Shiwjee Prasad	26.02.2013
MS-16066A	Capt	Jitendra Kumar	26.02.2013
MS-16070H	Capt	Vivek Malviy	26.02.2013
MS-16098H	Capt	Anand Kumar C	28.01.2013
MS-16170N	Capt	Rajesh Kumar Pandey	11.02.2013
MS-16225M	Capt	Anitabh Sukhadeve	11.02.2013
MS-16234N	Capt	Saroj Kumar Chaudhary	12.02.2013
MS-16337M	Capt	Kamal Das	11.02.2013
MS-16357A	Capt	Nabanita Mondal	13.02.2013
MS-15991W	Capt	Sunil Maru	26.02.2013
MS-16003X	Capt	Parveen Kumar	26.02.2013
MS-16007N	Capt	Tarange Archana	26.02.2013
MS-16011W	Capt	Gaurav Dhiman	26.02.2013
MS-16031K	Capt	Gokul B	26.02.2013
MS-16060Y	Capt	Akoijam Brajamani Singh	26.02.2013
MS-16121L	Capt	Kalyan Kumar Bhakta	28.01.2013
MS-16180X	Capt	Saikhedkar Swapnil Kisanrao	11.02.2013
MS-16217N	Capt	Shravan Kumar Mishra	11.02.2013
MS-16333W	Capt	Prashant Sharma	11.02.2013

FLT LT TO SQN LDR

MS-15893W) (AF-30041T)	Flt Lt	Waghmare Sachin Pandharinath	12.08.2012
MS-15908N (AF-30042B)	Flt Lt	Vinod Kumar Goyal	12.08.2012
MS-16360A (AF-30700F)	Flt Lt	Ajay Kumar Yadav	20.02.2013

SURG LT TO SURG LT CDR

MS-16077M (76006R)	Surg Lt	Amit Sharma	09.04.2013
MS-16080M (76003H)	Surg Lt	Suryavanshi Manohar Hanmantrao	09.04.2013
MS-16084H (76033A)	SURG LT	Vishnu Mohan M	13.06.2013

TO BE CAPT

MS-16801L	Lt	Hemant Himanshu Parihar	07.08.2012
-----------	----	-------------------------	------------

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

CAPT TO MAJOR

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17546-W	Capt	Upendra Singh Chauhan	20 Mar 2013
NTS-17547-Y	Capt	Thomas Kurian	20 Mar 2013
NTS-17548-F	Capt	Vimesh Kumar TM	20 Mar 2013
NTS-17549-K	Capt	Lakshmi Pathi	20 Mar 2013
NTS-17551-F	Capt	Kailash Chandra Khichar	20 Mar 2013
NTS-17552-K	Capt	Ubale Narayan Sarje Rao	20 Mar 2013
NTS-17554-P	Capt	Deepak Rao S	20 Mar 2013
NTS-17555-M	Capt	Jianlungpou Gangmei	20 Mar 2013
NTS-17532-W	Capt	John Baby	07 Apr 2012

LT TO CAPT

Pers No	Rank	Name	Date of Promotion
NTS-17587-A	Lt	Anoop Singh Bhadoriy	23 Apr 2013
NTS-17588-H	Lt	Sree Kumar S	23 Apr 2013
NTS-17589-L	Lt	Ashok Raj M	23 Apr 2013
NTS-17590-A	Lt	Rajeev Dhami	23 Apr 2013
NTS-17591-H	Lt	Sovit Sharma	23 Apr 2013
NTS-17592-L	Lt	Vijay Singh	23 Apr 2013
NTS-17593-N	Lt	Jasbir Singh	23 Apr 2013
NTS-17594-W	Lt	Kunal Das	23 Apr 2013
NTS-17595-Y	Lt	Bibhuti Kumar Sahoo	23 Apr 2013
NTS-17596-F	Lt	Gurvinder Singh	23 Apr 2013
NTS-17597-K	Lt	Vineeth K	23 Apr 2013
NTS-17598-M	Lt	Navneet Kumar	23 Apr 2013
NTS-17599-P	Lt	Anand Kumar Pandey	23 Apr 2013
NTS-17600-Y	Lt	P Suresh	23 Apr 2013
NTS-17601-F	Lt	Pradeep Kumar	23 Apr 2013

RAJVIR SINGH
BRIG
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 85, dated 11th March 2014----The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service on attaining the age of superannuation :-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Pers No	Rank	Name	Date of Birth	Date of Retirement
NTR-16882W	Lt Col	Shashi Kumar	10 May 1952	31 May 2008 (AN)

RAJVIR SINGH
BRIG
Dy DGAFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 86, dated 12th March 2014----The undermentioned officer was awarded the following punishment by the Summary trail:

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

NTR-16759X Major Arun Kumar Gupta, AMC (Non Tech)

- (a) To Forfeit 12 months of service for the purpose of promotion and
- (b) Severe Reprimand.

Date of Award : 14 Mar 2011

RAJVIR SINGH
BRIG
Dy DGAFMS (HR)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in